

Modipon Limited

Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) Phone (01232) 243471

September 12, 2020

To
The BSE Limited
The Listing Department
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai-400 001

SUB: REGULATIONS 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS)

REGULATIONS, 2015

Ref: - Scrip Code: 503776

Dear Sir/ Maam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the notice published in Financial Express & Jansatta dated September 12, 2020 regarding the meeting of the Board of Directors of the Company to be held on September 15, 2020 to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020 along with the Limited review report thereon by Statutory Auditors of the Company as required under Regulation 33 of the said Regulations.

This is for your kind information & records.

Thanking you

Yours truly,

For MODIPON LIMITED

Vineet Kumar Thareja

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

CIN: L65993UP1965PLC003082 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

16

POSSESSION NOTICE (For Immovable property) (Rule 8(1))

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated as mentioned below, calling upon the Borrower / Mortgagor / Guarantor to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the indersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 10 "day of September of the year 2020.

The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank, for an amount mentioned in the notice with interest thereon and other charges, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice. The dues payable as on the date of taking possession as mentioned is payable with further interest at contractual rates and rates, charges etc, till date of payment.

The Borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the section 13 of the Act , in respect of time available to them, to

Name of Borrower/ Mortgagor & Guarantor with Address	Description of Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount as per Possession Notice
Construction Company (Prop. Uday Pratap Singh Chauhaan), 44-A, Godawari Estate Colony, Deshnagar, Pilibhit, Uttar Pradesh,	All that part and parcel of the property in the name of Mr. Uday Pratap Singh Chauhaan & Usha Chauhaan situated at 44-A, Godawari Estate Colony, Deshnagar, Distt Pilibhit, Uttar Pradesh, Pin: 262001, within the registration sub-district Pilibhit and District Pilibhit. The Total Area of the Land is 150.04 sqmt and Bounded: -North:House of Govind Swarup Mishra, South: Plot No 44-B of Om Parkash Sharma, East: Plot No 43 of Verma Ji, West: Rasta	Amount as per Demand Notice Rs. 21,74,407.01 as on 31.07.2018		Rs. 28,59,143.01 as on 31.08.2020 + further Interest & othe charges
Date: 10.09.2020	Place: Pilibhit		Auth	orised Officer

I IIN AUDITED EINANCIAL DECILITO END THE DUADTED ENDED 20TH HINE 2020

Particulars	Quarter Ended 30.06.2020 (Un-audited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Un-audited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
Total Income		409924	2919893
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(94500)	307545	2507409
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(94500)	307545	2507409
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(94500)	307545	2507409
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	107014	169879	(1108226)
Equity Share Capital (Face value per share Rs 10/-)	10000000	10000000	10000000
Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	- 57		22187598
Earning per share (of Rs. 10/-each) (for continuing & discontinued operations) Basic & Diluted	(0.09)	0.31	2.51

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Company and Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.sfcsl.co.in and www.msei.in respectively. For and on behalf of the Board Kirti Kumar Jain

Registered Office: C/o Shree Rishabh Papers, Village Banah, Distt. Nawanshahar, Punjab-144522 Tel. No. 91-1881-273627-28, Fax No. 91-1881-273645, Email: sfcsi141@gmail.com Website: www.sfcsl.co.in CIN - L65921PB1984PLC005967

BCC FUBA INDIA LIMITED



Date: 11.09.2020

Place: Ludhiana

Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.)

Tel: 9218423157, Website: www.bccfuba.com, CIN: L51395HP1985PLC012209 Extract of UN-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30" June, 2020

SI.		Quarte	Year Ended	
No.	Particulars	30.06.2020 (Un-Audited)	30.06.2019 (Un-Audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	100.10	689.95	4,737.74
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.95)	(28.19)	(108.96)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.95)	(28.19)	(94.59)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.95)	(28.19)	(94.59)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(20.95)	(28.19)	(97.47)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Reserves (Excluding Revalution Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
ll	Basic (In Rs.)	(0.14)	(0.18)	(0.64)
93.0	Diluted (In Rs.)	(0.14)	(0.18)	(0.64)
Note	9s :-			

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the 01st Quarter ended 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the 01st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's website (www.bccfuba.com).

2 There are no extra ordinary items during the Quarter ended June, 2020 but year ended March, 2020 had exceptional item. 3 The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged wherever necessary to

correspond with the current year figures By the order of the Board

For BCC FUBA INDIA LTD Abhinav Bhardwai

(Director)

DIN 06785065

Executive Director

DIN-00932391

Place: New Delhi Date: September 11, 2020

DMI Finance Pvt Ltd

Registered Office: 9-10, 3rd Floor, Express Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002

SALE CUM AUCTION NOTICE The undersigned being the Authorized Officer (AO) of the DMI Finance Pvt Ltd, invites tenders/Quotations for purchase of the properties

specified below of the below mentioned Borrowers, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, for recovery of secured debts of Rs. 9,33,80,812/- (Rupees Nine Crore Thirty Three Lacs Eighty Thousand Eight Hundred Twelve Only) as on 2nd Septembe 2020 plus interest and costs, etc. of DMI Finance Pvt Ltd. The Property/ies are proposed to be sold on "As is Where is" and "As is Whatever there is basis" and on without recourse basis. Name & Address of the (1) SSG Infratech Private Limited having address at D-835, New Friends Colony, Delhi - 110065.

Borrowers / Guarantors/ (2) JPS Reinforced Pipes Private Limited having address at D-835, New Friends Colony, Delhi Mortgagors 110065. (3) Mr. Harjeet Singh Sahni, (4) Mr. Arjunpreet Singh Sahni, (5) Ms. Pummy Sahni having address at D-835, New Friends Colony, Delhi – 110065, (6) Mr. Charanjeet Singh Sahni having address at 22/3 Lajpat Nagar, Chowk, Lucknow, U.P.

Reserve Price	Earnest Money	[요구하다 하나면 전에 가입하다 (BRO HOUSE UP TO HOUSE BOARD #)]	Date & Venue of Auction /	Time of opening
(Rs.)	Deposit (EMD)		opening quotations/bids	quotations/bids
Rs. 3,30,00,000/- (Three Crore Thirty Lacs Only)		28th September 2020, Time: 5.00 P.M., Bids to be addressed to: DMI Finance Pvt Ltd, 9-10, 3rd Floor, Express Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110001 Contact Person: Bharat Mohan Mukkar, Tel: 9899209040 Or Vivek Rana, Tel: 9818648436 Or Akhil Jain Tel: 9911014154		11.30 a.m.

Inspection of Bidders/ interested parties may inspect the properties/site between 11.30 a.m. to 2.30 p.m., on 25th September 2020. The interested parties may contact Mr. Bharat Mohan Mukkar, DMI Finance Pvt Ltd, at his mobile No. 9899209040, or Vivek Rana, DMI Finance Pvt Ltd, at his Mobile No. 9818648436 or Mr. Akhil Jain, DMI Finance Pvt Ltd at his Mobile No. 9911014154.

Terms and Conditions: The Interested parties may send/submit their quotation/bid in sealed covers superscripting on the envelope as "Quotation for Purchase of Properties" - (All the piece and parcel of free hold land admeasuring 4 acres in Khasra no. 20, Kila no. 2 (8-0), 3 (8-0), 4 (8-0), 5 (8-0), falling in the revenue estate of village Kidawali, Tehsil and District Faridabad, Haryana), along with Earnest Money Deposit (EMD) by way of Pay Order/DD, drawn in favour of "DMI Finance Pvt Ltd", payable at New Delhi The EMD shall bear no interest, be adjusted in case of successful parties and shall be forfeited in case of default by such party.

Tenders/bids incomplete in any respect or unsigned or not accompanied by DD/PO for the requisite EMD are liable to be summarily rejected at the sole discretion of AO.

The aforesaid Property/ies shall not be sold below the reserve price mentioned above.

 Successful party shall deposit 25% of the quoted amount, which amount shall include the EMD deposited, immediately on the same day by way of Pay Order / DD drawn in favour of "DMI Finance Private Limited.", payable at New Delhi, and remaining 75% shall be deposited within 15 days of date of the confirmation of sale or within the extended period as allowed by the undersigned in writing.

The AO may at his/her sole discretion extend in writing the time for making the payments. In case of failure to make the required payments by the stipulated dates, the EMD and all amounts paid till then, shall stand forfeited without any notice and the property/ies

 All such Payments to be made only in the form of Pay Order or Demand Draft drawn in favour of the DMI Finance Pyt Ltd. payable at The Successful party would bear the charges/fees payable for sale/conveyance such as stamp duty, registration fees, taxes, levies.

etc. as applicable as per lawand also the miscellaneous expenses. The AO will not be responsible for any charge, lien, encumbrance, property tax or any other dues to the Govt. or anybody in respect of

the property/ies under sale. DMI Finance Private Limited shall not be responsible for any error or omission in this proclamation. The Bid form can be obtained from DMI Finance Pvt Ltd, 3rd Floor, Express Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002 during the normal working hour. Along with the Bid form, the intending bidder shall also attach copy of PAN Card issued by Income Tax Deptt AND his/her identity proof and proof of residence such as copy of Aadhar Card or Passport or Election Commission Card or

9) All the dues and outgoings i.e municipal tax, maintenance, electricity, water tax or any other dues including all overdue in respect of the said property shall be paid by the successful bidder/purchaser.

10) The AO reserves its right to negotiate with the highest bidder for improvement in the offer and has the absolute right to accept or reject any quotation or adjourn/postpone/cancel the auction/sale without assigning any reason therefore.

 The sale is subject to confirmation by the DMI Finance Pvt Ltd. 12) It shall be the sole responsibility of the successful bidder to get the Sale Certificate registered and shall bear all expenses towards

registration of sale certificate. 13) If the Borrowers/Guarantors/Mortgagors pays the amount due to the DMI Finance Pvt Ltd in full before the date of auction/confirmation of sale, the auction/sale is liable to be stopped.

14) To the best of knowledge and information of the AO, no other encumbrance exists on the above mentioned property/ies. 15) The bid is not transferable

16) DMI Finance Pvt Ltd or any of its employee shall not be liable for any claims from any person in respect to the property put to sale. 17) This publication is also a notice of 15 days to the Borrowers, Guarantors and Mortgagors of the intention of holding of sale on above mentioned date if the dues are not repaid in full. If the borrowers/Guarantors/Mortgagors has any such proposal of selling of the property/ies to any person by private sale or by getting quotation, the same may be communicated to the undersigned within 7 days.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002

The Borrowers, Guarantors and Mortgagors are hereby noticed to pay the total outstanding dues before the date of opening of bid failing which the secured assets will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest, cost and charges thereon from you. (Authorized Officer) Name: Bharat Mohan Mukkar Place: New Delhi Date: 12th September-2020 DMI Finance Pvt Ltd.

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2020

(Rs. in lakh

INTEC SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA

Intec Capital Limited

(CIN:L74899DL1994PLC057410) Regd Office: 708, Manjusha, 57 Nehru Place, New Delhi-110 019, Website:www.inteccapital.com Email for investors: complianceofficer@inteccapital.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the guarter ended 30 June, 2020

SI.	5		Quarter ended	Quarter ended	
No.	Particulars	30 June, 2020	31 March, 2020	30 June, 2019	31 March, 2020
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations				
	Interest income	357.58	(6.19)	679.15	1,495.66
	Fees and commission income	1.86	5.79	17.88	42.83
	Recovery of financial assets written off	0.53	11.55	13.14	51.01
	Total revenue from operations	359.97	11.15	710.17	1,589.50
	Other income	51.25	92.40	32.65	135.71
	Total revenue	411.22	103.55	742.82	1,725.21
2	Expenses)		9	-
	Finance costs (refer notes 4 below)	6.43	(339.45)	400.85	784.98
	Impairment on financial instruments	101.45	1,537.47	937.36	4,489.18
	Employee benefits expense	107.48	118.83	151.56	528.84
	Depreciation and amortisation expenses	14.73	16.11	14.99	61.10
	Other expenses	51.89	164.51	147.50	579.79
	Total expenses	281.98	1,497.47	1,652.26	6,443.89
3	Profit/(Loss) before tax (3)=(1)-(2)	129.24	(1,393.92)	(909.44)	(4,718.68)
4	Tax expense				
	Current Tax - Earlier Year/s	(6.87)	-	131.41	121.43
	Deferred Tax	(120.62)	661.81	232.13	979.60
	Total tax (expense)/reversal	(127.49)	661.81	363.54	1,101.03
5	Profit/(Loss) after tax (3)-(4)	1.75	(732.11)	(545.90)	(3,617.65)
6	Other comprehensive income/(loss), net of tax				
	Items that will not be reclassified to profit or loss				
	Remeasurement (gains)/losses on defined benefit plan	0.12	(1.56)	0.69	0.50
	Tax impact on above	(0.03)	0.41	(0.18)	(0.13)
	Total other comprehensive income/(loss), net of tax	0.09	(1.15)	0.51	0.37
7	Total Comprehensive Income/(Loss) (5)+(6)	1.84	(733.26)	(545.39)	(3,617.28)
8	Paid-up equity share capital	-			
	(face value of Rs. 10/- each)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
	Earnings per equity share (not annualised)				
	Nominal Value of share	10.00	10.00	10.00	10.00
	Basic	0.01	(3.99)	(2.97)	(19.70)
	Diluted	0.01	(3.99)	(2.97)	(19.70)

The standalone financial results for the quarter ended 30 June, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11 September, 2020.

These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The Company is primarily engaged in the business of providing loans to Small and Medium Enterprises ('SME') customers and

has no overseas operations / units and as such, no segment reporting is required under Indian Accounting Standard for Operating Segments (Ind AS 108) The Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending

business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Company is un-able to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks, and has approached these banks for its restructuring / settlement which inter-alia includes waiver / reduction of interest being considered by the respective banks. As the Company is reasonably hopeful of waiver / reduction of the interest under these restructuring / settlement packages, interest of Rs. 1,096.65 lakhs (Rs. 712.95 lakhs for the earlier year 2019-20 and Rs. 383.70 lakhs for the current quarter) though accrued on these loans, has not been provided in these financial results. The SARS-CoV-2 virus responsible for COVID-19, which has been declared a Global pandemic by the World Health Organization,

continues to spread across the globe, and has contributed to a significant decrease in global and local economic activities, and most of the governments including the Indian Government, had announced the strict lockdowns across their respective countries as one of the strongest measures to contain the spread of the virus. The Company keeping in view the said situation, has assessed its future cash flow projections and recoverability of its assets including loans to customers and also held impairment testing of its non-monetary assets including the property, plant and equipment, using the various internal and external information Based on this evaluation, the Company expects to recover the carrying amount of these assets and does not anticipate any impairment to these financial and non-financial assets as at the date of approval of these financial results. However, the impact assessment of COVID-19 is a continuing process given the uncertainties associated with its nature and duration, and therefore, the Company will continue to monitor any material changes in future economic and business conditions, and the impact thereof, if any, required will be taken accordingly.

Accumulated losses have resulted in erosion of substantial net worth of the Company. However, the financial results have been prepared on a going concern basis on the strength of continued support from promoters and bankers, the future plans for operations and also the intensified process of the recovery and settlement of its defaulted loans to improve its liquidity. The management, considering the same is hopeful of improvement in its financial position. The figures for the previous quarter ended 31 March, 2020 are the balancing figures between audited figures of the full financia

year upto 31 March, 2020 and published unaudited year to date figures up to the third quarter ended 31 December, 2019, which were subjected to limited review. The figures of the previous quarter / year have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary, to conform to current quarter's classification.

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the guarter ended 30 June, 2020

	1	Ou auton and ad	Ou autou a pala all	Ou auton and ad	(Rs. in lakh
SI.	Particulars	Quarter ended	· ·	Quarter ended	Year ended
No.	i diticulais	30 June, 2020	31 March, 2020	30 June, 2019	,
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations				
	Interest income	327.82	(31.79)	653.27	1,391.84
	Fees and commission income	1.86	5.79	17.88	42.83
	Recovery of financial assets written off	0.53	11.55	13.14	51.0
	Total revenue from operations	330.21	(14.45)	684.29	1,485.6
	Other income	51.25	92.40	32.65	135.7
	Total revenue	381.46	77.95	716.94	1,621.3
2	Expenses				
	Finance costs (refer notes 4 below)	6.43	(339.45)	400.85	784.9
	Impairment on financial instruments	101.45	1,537.47	937.36	4,489.1
	Employee benefits expense	107.48	118.83	151.56	528.8
	Depreciation and amortisation expenses	17.81	19.20	18.07	73.4
	Other expenses	52.98	166.13	148.73	584.7
	Total expenses	286.15	1,502.18	1,656.57	6,461.1
3	Profit/(Loss) before tax (3)=(1)-(2)	95.31	(1,424.23)	(939.63)	(4,839.79
4	Tax expense				
	Current Tax - Earlier Year/s	(6.87)	-	131.41	121.4
	Deferred Tax	(120.62)	661.81	232.13	979.6
	Total tax (expense)/reversal	(127.49)	661.81	363.54	1,101.0
5	(Loss) after tax (3)-(4)	(32.18)	(762.42)	(576.09)	(3,738.76
6	Other comprehensive income/(loss), net of tax				
	Items that will not be reclassified to profit or loss				
	Remeasurement (gains)/losses on defined benefit plan	0.12	(1.56)	0.69	0.5
	Tax impact on above	(0.03)	0.41	(0.18)	(0.13
	Total other comprehensive income/(loss), net of tax	0.09	(1.15)	0.51	0.3
7	Total Comprehensive (Loss) (5)+(6)	(32.09)	(763.57)	(575.58)	(3,738.39
8	Paid-up equity share capital				
	(face value of Rs. 10/- each)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.6
	Earnings per equity share (not annualised)				·
	Nominal Value of share	10.00	10.00	10.00	10.0
	Basic	(0.18)	(4.15)	(3.14)	(20.36
	Diluted	(0.18)	(4.15)	(3.14)	(20.36

The consolidated financial results for the guarter ended 30 June, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11 September, 2020.

These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The Parent Company is primarily engaged in the business of providing loans to Small and Medium Enterprises ('SME') customers

and has no overseas operations / units and as the Subsidiary Company is yet to start operations, no segment reporting is required under Indian Accounting Standard for Operating Segments (Ind AS 108). The Parent Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending

business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Parent Company is un-able to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks, and has approached these banks for its restructuring / settlement which inter-alia includes waiver / reduction of interest being considered by the respective banks. As the Parent Company is reasonably hopeful of waiver / reduction of the interest under these restructuring / settlement packages, interest of Rs. 1,096.65 lakhs (Rs. 712.95 lakhs for the earlier year 2019-20 and Rs. 383.70 lakhs for the current quarter) though accrued on these loans, has not been provided in these financial results. The SARS-CoV-2 virus responsible for COVID-19, which has been declared a Global pandemic by the World Health Organization

continues to spread across the globe, and has contributed to a significant decrease in global and local economic activities, and most of the governments including the Indian Government, had announced the strict lockdowns across their respective countries as one of the strongest measures to contain the spread of the virus. The Group keeping in view the said situation, has assessed its future cash flow projections and recoverability of its assets including loans to customers and also held impairment testing of its non-monetary assets including the property, plant and equipment, using the various internal and external information. Based on this evaluation, the Group expects to recover the carrying amount of these assets and does not anticipate any impairment to these financial and non-financial assets as at the date of approval of these financial results. However, the impact assessment of COVID-19 is a continuing process given the uncertainties associated with its nature and duration, and therefore, the Group wil continue to monitor any material changes in future economic and business conditions, and the impact thereof, if any, required will be taken accordingly. Accumulated losses have resulted in erosion of substantial net worth of the Group. However, the financial results have been

prepared on a going concern basis on the strength of continued support from promoters and bankers, the future plans for operations and also the intensified process of the recovery and settlement of its defaulted loans to improve its liquidity. The management, considering the same is hopeful of improvement in its financial position. The figures for the previous guarter ended 31 March, 2020 are the balancing figures between audited figures of the full financia year upto 31 March, 2020 and published unaudited year to date figures up to the third quarter ended 31 December, 2019, which

were subjected to limited review. Figures for the previous quarter / year have been regrouped and /or reclassified, wherever considered necessary, to conform to

For and on behalf of the Board of Directors of Intec Capital Limited

Sanjeev Goel (Managing Director) DIN - 00028702 FINANCIAL EXPRESS

पंजाब नैश्ननल बैंक 🦊 punjab national bank

ZONAL OFFICE: GENERAL ADMINSTRATION DEPTT., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow. PH: 0522-2728033, e-mail: fgmlckgad@pnb.co.in

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Expression of Interest is invited only from Central Govt. Dept. /Central Govt

Construction Agency/ Central Govt. Enterprises to take up the Repair and Renovation work at Punj Vihar Residential Complex, Vibhuti Khand, Gomt Nagar, Lucknow-226010 as a 'Deposit Work' on 'Turn-Key Basis' Last Date and Time of Receipt of EOI- 05.10.2020 at 15:00 hrs. Opening of EOI- 05.10.2020 at 15:30 hrs, Full details, application forms, corrigendum/clarification, if any, can be downloaded from our Bank's website https://www.pnbindia.in/Tender.aspx)

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED Regd office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur Phone: 0141-2742557, 2742266 • CIN: L85110RJ1989PLC005206

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the

E-Mail: sharmaeastindia@gmail.com . Website: www.jaipurhospital.co.in NOTICE OF BOARD MEETING

meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, September 15, 2020 at 04.00 P.M. at the registered office of the Company, inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended on 30th June, 2020 and any other matter with the permission of Chair. This information is also available on the website of the company at www.jaipurhospital.co.in and also on the website of BSE Ltd. where the shares of the company are

For Sharma East India Hospitals & Medical Research Limited Date: September 11, 2020 Sd/- (Shailendra Kumar Sharma Place: Jaipur Managing Director

PUBLIC ANNOUNCEMENT Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and

Pursuant to Regulation 31(2) read with regulation 12(3) of the Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF S.B.O. EXPORT PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (CIN: U74999DL2018PTC328002)

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016, a Public Announcement is hereby made that the List of Stakeholders of S.B.O. EXPORTS PRIVATE LIMITED - in Liquidation ("Corporate Debtor") has been prepared by the Liquidator on 04th September 2020, which has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court-II), on 10th September, 2020. As there is no functional website of the Company (Corporate Debtor), hence, the List of Stakeholders showing complete details of amount of Claims Admitted by the Liquidator, extent upto which claims are secured/unsecured, will be available for inspection at the office of the Liquidator at E-103, G K Enclave-1, New Delhi-110048. Any queries with respect to the list of Stakeholders of the Corporate Debtor can be addressed at irpepoch@gmail.com.

Liquidator for S.B.O. Export Pvt. Ltd. (In Liquidation) Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077 Date: 12.09.2020 Address: E-103, G K Enclave-1, New Delhi-110048 Place: New Delhi E-mail id: irpepoch@gmail.com

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the ewspaper for change of Registered office of the company from one state to another. BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION DELHI In the matter of sub-section (4) of Section

FORM NO. INC-26

listed at www.bseindia.com.

13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/S OM VISHVESHWARA INFRATECH

PRIVATE LIMITED having its Registered

office at S 7/305 R K PURAM NEW DELHI

New Delhi, Delhi-110022Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on September 02, 2020 to enable the company to change its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Jharkhand".

Any person, whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint from or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its Registered Office at the address mentioned below:

S 7/305 R K Puram New Delhi, Delhi-For and on behalf of Applicant OM VISHVESHWARA INFRATECH PRIVATE LIMITED

Date:08.09.2020

E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 4 (1)(a) of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company i

scheduled to be held on Tuesday, 15th September

2020 inter alia, to consider and approve the

Unaudited Financial Results of the Company for the

CIN: L74899DL1993PLC056627.

New Delhi- 110065

Tel. No. 011-26848636

Email I.D info@kuwer.com,

Website- www.kuwer.com

Notice is hereby given pursuant to regulation 47 o

SEBI (Listing Obligations and Disclosures

Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circula

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/140, dated July

29, 2020, that the meeting of the Board of Directors

scheduled to be held on Tuesday, 15.09.2020,

03:00 P.M. at registered office of Company at D

1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-

1. To approve the un-audited financial results for

the quarter ended on 30th day of June, 2020.

Any other matter with the permission of th

The intimation contained in this notice is also

available on Company's website www.kuwer.com

For Kuwer Industries Limite

Regd. Office: Hapur Road,

Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP

Phone: (01232) 243471;

Jagdish Chandra

Company Secretary

110065 to consider the following:

and www.bseindia.com

Date: 11.09.2019

Place: New Delhi

R.O.: D-1004, First Floor, New Friends Colony

quarter ended 30th June, 2020 along with the Limited review report thereon by Statutory Auditors of the Company as required under Regulation 33 of the said Regulations The copy of this intimation shall also be available on the Company's website at http://www.modipon.net and on the website of the BSE Limited i.e.,

www.bseindia.com For MODIPON LIMITED Place: New Delhi **Date:** 11th September, 2020 Vineet Kumar Thareja

(Company Secretary & Compliance Officer punjab national ban

पंजाब नैशनल बैंक .भरोसे का प्रतीक। General Services Administration Division , First Floor,

Plot No.4, Sector-10, Dwarka, Delhi-110075

Mukesh Gupta

DIN: 05124896

(Director)

Email: hogad@pnb.co.in Tel- 011-28075388 TENDER NOTICE

commercial) from eligible bidders for the sale of old/non-serviceable SFF items and other miscellaneous scrap materials lying at: Basement-I & III, PNB, HO Sec-10, Dwarka, Delhi on "as is where

Punjab National Bank invites sealed bids (both technical and

Floors I to VII, PNB, 7 Bhikaiji Cama Place, Delhi on "as is where is" basis. Date of inspection:

1.21.09.2020 and 22.09.2020 between 11 AM to 4.00 PM at Basement-I & III, PNB, HO Sec-10, Dwarka, Delhi-110075. 2.24.09.2020 and 25.09.2020 between 11 AM to 4.00 PM at PNB.

7 Bhikaiji Cama Place, Delhi 110066. Last date of submission of tenders is 05.10.2020 up to 15.00 Hrs. The tenders will be opened on 06.10.2020 at 11:00 hrs. Interested bidders may visit our website https://www.pnbindia.in/

Tender.aspx for downloading the detailed tender document. Any corrigendum/clarification in respect of above said works shall be released only at our website https://www.pnbindia.in/Tender.aspx.

UCO BANK यको बैक

ASSETS MANAGEMENT BRANCH, 5, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the

UCO BANK, Asset Management Branch, New Delhi, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 09.06.2020, calling upon the Borrowers: SH. ABHINAV CHAUHAN S/O. SH. RAJESH CHAUHAN AND SH. RAJESH CHAUHAN S/O. SH. MAAN SINGH CHAUHAN, R/o. K-66, Pratap Vihar, Sector-12, Ghaziabad, U.P. - 201009, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.31.68.662.05** (Rupees Thirty One Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred Sixty Two and Paisa Five Only) as on 30.09.2015 with further interest from 01.10.2015 within 60 days from the date of receipt of the said notice, together with incidental expenses, cost, charges etc. The Borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/ Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on this 10.09.2020. The Borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, Asset Management Branch, New Delhi, for an amount of Rs.31,68,662.05 (Rupees Thirty One Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred Sixty Two and Paisa

The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY**

Five Only) with further interest from 01.10.2015, together with

All that part and parcel of the equitably Mortgaged Property Flat

No.SF-1, Second Floor with Roof Rights, at Plot No.J-79, J-Block, Sector-12, G.M.P., Pratap Vihar, Ghaziabad, Distt.- Ghaziabad

> Authorised Officer, **UCO BANK**

PLACE: GHAZIABAD

incidental expenses, cost, charges etc.

(U.P.) - Covered Area 125.42 Sq.Mtr.

DATE: 10.09.2020

financialexp.epapr.in New Delhi

current quarter's disclosures.

Place: New Delhi

Date: 11 September, 2020

दिसंबर के बाद ही चार फीसद से नीचे आ सकती है महंगाई

नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)।

भारतीय स्टेट बैंक की एक रपट में अनुमान लगाया गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति अब दिसंबर के बाद ही चार फीसद से नीचे आएगी। रपट के अनुसार इसमें इस समय आया उछाल कोविड के कारण आपूर्ति की कडियों के टूटने और सरकार की ओर से की गयी भारी खरीद के चलते है। एसबीआइ इकोरैप के ताजा संस्करण में कहा गया है कि अगस्त का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का आंकडा सात फीसद या उससे ऊपर बना रह सकता

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)

नएसबाईसी न्यू एमढीबीपी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, बोखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली-110020

निविदा सुचना (केवल ई-टेण्डरिंग मोड) कॉनकॉर ऑनलाइन दो बोली प्रणाली में "एमएमएलपी बरही, हरियाणा में कंटेनरों के टर्मिनल परिवहन" के ि केवल ई-निविदा सह रिवर्स ऑक्शन मोड के माध्यम से निविदा आमंत्रित करता है। निविदा दस्तावेज रू. 1000/

का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद ही www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

28.09.2020 को 15:00 बजे तक

योग्यता मापदंडों और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या

www.tenderwizard.com/CCIL पर लोंग ऑन करें। निविदादाताओं से अनुरोध है कि वेबसाइट नियमित रूप

CON/Area-I/TC/T.T./BARHI/2020

रु. 41,04,842 / (जीएसटी सडित) प्रति वर्ष

रु. 82,097 /- ई-भुगतान के माध्यम से

12.09.2020; 15:00 क्यों से 25.09.2020 16:00 क्यों तक

रा. 1,000 /- समी कर एवं प्रमारों (अ-प्रतिदेव) सहित ई-मुगलान के माध्यम से

रा. 2,422 / - सनी कर एवं प्रमारों (अ-प्रतिदेय) सहित ई-मुगतान के माध्यम से

समूह महाप्रबंधक सी एवं ए/एरिया.1, उत्तरी

एसबीआइ की रपट

एसबीआई की रपट में कहा गया है, 'हमें लगता है कि मुद्रास्फीति का अगस्त का आंकड़ा सात फीसद या उससे ऊपर रहेगा और यदि तुलनात्मक आधार का प्रभाव ही इसका प्राथमिक कारण है तो मुद्रास्फीति संभवतः दिसंबर या उसके बाद ही चार फीसद से नीचे दिखेगी।'

है। यह आंकडा सोमवार को आएगा।

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 6.93 फीसद रही जबिक पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 3.15 फीसद था। मुद्रास्फीति में यह तेजी खास कर अनाज, दाल-सब्जियों और मांस-मछली के दाम बढ़ने की

वजह से है। एसबीआई की रपट में कहा गया है, 'हमें लगता है कि मुद्रास्फीति का अगस्त का आंकड़ा सात फीसद या उससे ऊपर रहेगा

और यदि तुलनात्मक आधार का प्रभाव ही इसका प्राथमिक कारण है तो मुद्रास्फीति संभवतः दिसंबर या उसके बाद ही चार फीसद से नीचे दिखेगी।' रपट में कहा गया है कि कोविड- 19 का संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों में जिस तरह बढ रहा है उससे यह मानना कठिन है कि आपुर्ति की कडियां जल्दी फिर से सामान्य होंगी। रपट में कहा गया है कि इस स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ने का ही खतरा है। भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को हद से हद दो फीसद घट बढ़ के साथ चार फीसद के आस पास रखने की

जिम्मेदारी दी गई है। रपट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के परिदृश्य को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में नीतिगत ब्याज दर में और कमी की उम्मीद कम ही है। अगर की भी गई तो यह ज्यादा से ज्यादा 0.25 फीसद तक हो सकती है। फरवरी में मौद्रिक नीति समिति के पास मुद्रास्फीति के जो आंकड़े होंगे वे केवल दिसंबर तक के होंगे।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,

मण्डल,

वितरण

seedck-

CIN:

वितरण

दक्षिणांचल विद्युत

निगम लि., विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर,

कानपुर-208006 **क** & Fax: 0512-

Email:-

U31200UP2003SGC027460

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विद्युत वितरण

मण्डल-कानपुर नगर के अन्तर्गत

निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य हेतु

अनुभवी व सक्षम निविदादाताओं द्वारा

निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा

सम्बन्धी पूर्ण सुचना एवं ई-निविदा में यदि

कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि

में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टेण्डर

वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर

77/वि.वि.मं.का./2020-21 विद्युत वितरण

खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर के अन्तर्गत 33/11

के.वी. विद्युत उपकेन्द्र मन्धना, सण्डीला एवं

टिकरा के अधीन विद्युत लाइनों के

आकरिमक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य

2. 78/वि.वि.मं.का./2020-21 विद्युत

<mark>वि</mark>तरण खण्ड–द्वितीय, चौबेपुर के अन्तर्गत

33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र चौबेपुर ग्रामीण

एवं गढ़ेवा के अधीन विद्युत लाइनों के

आकस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य

3. 79/वि.वि.मं.का./2020-21 विद्युत

वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर के अन्तर्गत

33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र चौबेपुर

एसाइड के अधीन विद्युत लाइनों के

आकिस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य

4. 80/वि.वि.मं.का./2020-21 विद्युत

वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर के अन्तर्गत

33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र बिल्हौर ग्रामीण

एवं बिल्हौर टाउन के अधीन विद्युत लाइनों के

आकिस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य

5. 81/वि.वि.मं.का./2020-21 विद्युत

वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर के अन्तर्गत

33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र अरौल,

मकनपुर एवं ककवन के अधीन विद्यत

लाइनों के आकस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत

का कार्य। 6. 82/वि.वि.मं.का./2020-21

विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर के

अन्तर्गत 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र

शिवराजपुर, शिवराजपुर टाउन एवं उत्तरीपुरा

के अधीन विद्युत लाइनों के आकस्मिक

अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य। पत्रांकः

1169/विविमंका/ओ-3 दि.: 10.09.2020

देखी जा सकती है।

2285102

np0512@gmail.com

अल्पकालीन ई-निविदा

KAILASH AUTO FINANCE LIMITED Regd. Office: 15, Rolland Complex, 2nd Floor, 37/17, The Mall, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh Corp Office: 6 Lyons Range, 1st Floor Kolkata - 700001, West Bengal Email: info@kailfin.com, Website: www.kailfin.com CIN: L65921UP1984PLC006829

Notice Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) be and is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, September 15, 2020 to,inter-alia consider and approve the Un-audited Financial Results Of the Company for the Quarter ended June 30, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website a http://www.kailfin.com and also on the website of the Stock Exchange at http://www.bseindia.com. For & On Behalf of the Board

Place : Kanpur Dev Govind Binani

Regd. Office: Hapur Road, lodinagar, Ghaziabad -201 204 (UF **Phone:** (01232) 243471; E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 4 (1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Tuesday, 15th September 2020 inter alia, to consider and approve the Inaudited Financial Results of the Company for the juarter ended 30th June, 2020 along with the Limited view report thereon by Statutory Auditors of the Company as required under Regulation 33 of the

The copy of this intimation shall also be available or the Company's website at http://www.modipon.ne and on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com. For MODIPON LIMITED Place: New Delhi

Date: 11th September, 2020 Vineet Kumar Thareja (Company Secretary & Compliance Officer

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के <mark>नियम</mark> कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (अ) के मामले में

मैसर्स ओम विश्वेश्वरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए 7/30 आर.के. पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली-110022 पर है

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 व अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे दिल्ली राज्य'' से ''झारखण्ड राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 2 सितम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की माँग

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति पादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग दुसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत

ए ७/३०५ आर.के. पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली-

कार्यालय के पते पर भी भेजेगाः

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से लिमिटेड

मुकेश गुप्ता (निदेशक) डीआईएनः 051224896 स्थानः दिल्ली

G R BUILDWEL LIMITED रजि. ऑफिस: 3 - बी, वंदना, 11 टॉलस्टाय मार्ग नई दिल्ली 110001 फोन: 9313658558 ई - मेल: gcl1986@yahoo.com CIN:U67120DL1982PLC013027

फॉर्म नंबर INC-25A सार्वजनिक कंपनी को एक निजी कंपनी में बदलने के लिए विजापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉपीरेट मामलों के मंत्रालय से पडले उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनियों के 41 नियम (निगमन) नियम, 2014 के मामले में

मेसर्स G R BUILDWEL LIMITED के मामले मे 3-बी वंदना. 11 टॉलस्टाय मार्ग.नई दिल्ली 110001 अपना पंजीकत कार्यालय

आवेदक आम जनता को यह जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन करने का इरादा किया है, जो कि पर्वोक्त नियमों के साथ पढ़ा गया है और विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए इच्छक है। 07 सितंबर 2020को आयोजित अतिरिक्त साधारण आम बैठक में, कंपनी को इस तरह के रूपांतरण के लिए प्रभाव प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी रुपि कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है. वह अपनी रुचि के स्वरूप और संबंधित के विरोध के

आधार बतातं हए हलफनामे दवारा समर्थित अपनी आपत्तियों के पैजीकृत पोस्ट दवारा वितरित या भेज सकता है या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी -2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अन्तोदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स. नई दिल्ली - 110003, भारत, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदड़ दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को इसकी सूचना 3-बी, वंदना, 11 टॉलस्टाय मार्ग,नई दिल्ली 110001

में भेज दें। आवेदक की ओर से जी आर बिल्डवेल लिमिटेड के लिए

(राजीव रंजन तीवारी) निदेशक

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 105वें पायदान पर

हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर, चीन 124वें स्थान पर

नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)।

देशों में कारोबर के वातावरण के खुलेपान के बारे में कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक तुलनात्मक रपट 'ग्लोबल इकोनामिक फ्रीडम इंडेक्स (वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सचकांक) 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है।

पिछले साल देश 79वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। रपट के अनुसार पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। दस अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल पहले के 8.22 के मुकाबले 7.16 अंक, कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17 की जगह 5.06, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले में 6.08 की जगह 5.71 और वित्त, श्रम तथा व्यवसाय के विनियमन के मामल में 6.63 की जगह 6.53 अंक मिले हैं। इसमें प्राप्तांक दस के जितना करीब होता है स्वतंत्रता उसी अनुपात में अधिक मानी जाती है।

यह रपट फ्रेजर इंस्टिट्यूट तैयार करता है। इस रपट को भारत में दिल्ली की गैर सरकारी संस्था सेंटर फार सिविल सोसाइटी ने गुरुवार को जारी किया। रपट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने की संभावनाएं अगली पीढ़ी के सुधारों तथा अंतराष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन पर निर्भर करेंगी। सूची में प्रथम दस देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, मारीशस, जॉर्जिया, कर्नांडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रोंस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है।

इस रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया है। इनमें व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश की योग्यता, निजी संपति की सुरक्षा, कानन का शासन सहित अन्य मानकों को देखा जाता है। इसके लिए विभिन्न देशों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण किया जाता है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश,

कांगो, जिंबाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं।

सूचकांक, निफ्टी में मामूली बढ़त, साप्ताहिक लाभ दर्ज किया

मुंबई, 11 सितंबर (भाषा)।

वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख व किसी तरह के संकेतकों के अभाव के बीच शुक्रवार को स्थानीय शेयर बाजार स्थिर रुख के साथ बंद हुए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 14.23 अंक या 0.04 फीसद की बढत के साथ 38,854.55 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15.20 अंक या 0.13 फीसद के लाभ से 11,464.45 अंक पर पहुंच गया। सुचकांक की कंपनियों में एसबीआई का शेयर सबसे अधिक 2.30 फीसद चढ़ गया। टीसीएस, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, टाइटन और इन्फोसिस

के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स व एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.71 फीसद तक नीचे आ गए।

साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 497.37 अंक या 1.29 फीसद लाभ में रहा। वहीं साप्ताहिक आधार पर निफ्टी में 130.60 अंक या 1.15 फीसद की बढ़त दर्ज हुई।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि भारतीय बाजार लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुए भारत-चीन के बीच सीमा तनाव को समाप्त करने के लिए बातचीत में कुछ प्रगति से बाजार मामुली लाभ दर्ज कर पाए। उन्होंने कहा कि सुचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का दुसरी तिमाही नतीजा अच्छा रहने की उम्मीद

के बीच आईटी शेयर लाभ में रहे। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर बाजार ने 1.2 फीसद का लाभ दर्ज किया है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक इस महीने 4,500 करोड़ रुपए की निकासी की है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.58 फीसद की बढ़त में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.35 फीसद के नुकसान से 39.92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया सात पैसे टूटकर 73.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मुद्राकोष की राय में भारत में अभी और राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत

वाशिंगटन , 11 सितंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने कहा कि भारत को कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में अपने यहां एक और प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत है। उसने इस बारे में स्वास्थ्य, भोजन और गरीबों को आमदनी की मदद तथा उद्यमों को सहायता की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

मुद्राकोष के सूचना विभाग के निदेशक गेरी राइस ने संवाददाताओं के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस में कहा कि यह बहपक्षीय संस्था इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार के उठाए गए कदमों को सही मानती है। इसमें राजकोषीय प्रोत्साहन के कदम भी इन कदमों को कम आयवर्ग के मजदरों और गरीब परिवारों को केंद्र में रख कर उठाया गया है। उन्होंने कहा, 'वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों और कर्जदारों की मदद के लिए कर्ज में ढील और नकदी प्रवाह बढाने के जो उपाय किए गए हैं हम उसके पक्ष में हैं।' राइस ने कहा, 'हमारा मानना है कि (भारत में) अभी और भी राजकोषीय प्रोत्साहन, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं. खाद्यान्न और आमदनी की मदद तथा उद्यमों की मदद के लिए खर्च की आवश्यकता है।'

मुद्राकोष के प्रवक्ता ने देश की राजकोषीय स्थिति को मध्यावधि में मजबत बनने की विश्वसनीय योजना जल्द घोषित करने को भी महत्वपर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजकोषीय स्थिति को सुधारने मुद्राकोष के सूचना विभाग के निदेशक गेरी राइस ने संवाददाताओं के साथ एक वीडियो कांफ्रें स में कहा कि यह बहुपक्षीय संस्था इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार के उठाए गए कदमों को सही मानती है। इसमें राजकोषीय प्रोत्साहन के कदम भी। इन कदमों को कम आयवर्ग के मजदूरों और गरीब परिवारों को केंद्र में रख कर उढाया गया है।

की एक विश्वसनीय योजना जारी किया जान और उसको अच्छी तरह बताया जाना महत्वपूर्ण है। साथ में राजकोषीय परदर्शिता भी बरती जानी चाहिए। इससे बाजार का विश्वास बढ़ेगा।

राइस ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाजार का विश्वास मजबूत होगा और इससे कर्ज की लागत कम करने में मदद मिलेगी और परी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का भारत में विकास और गरीबी पर बहत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। इस अभृतपूर्व संकट में तात्कालिक प्राथमिकता समन्वित नीति के साथ विषाणु से निपटना है। भारत में रपटों के अनुसार 42 लाख से अधिक आबादी कोविड19 से संक्रमित हो चुकी है। अमेरिका में 64 लाख लोग इससे संक्रमित

बिजली की शीर्ष मांग पुराने स्तर पर लौटी

नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)।

बिजली की शीर्ष मांग पिछले साल के स्तर पर लौट आई है। बीते बुधवार को व्यस्त समय में बिजली मांग 174.33 गीगावाट तक पहुंच गई। यह पिछले साल सितंबर की उच्चतम मांग 173.15 गीगावाट से भी अधिक है। यह स्थिति देश में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के सामान्य स्थिति की तरफ लौटने को दर्शाती है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यह संयोग ही है कि बिजली की हासिल शीर्ष मांग पिछले साल भी नौ सितंबर को ही 173.15 गीगावाट के शीर्ष स्तर पर पहुंची थी।

सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए 25 मार्च से पूरे देश में पूर्णबंदी लागू कर दी थी। इससे अप्रैल और उसके बाद बिजली की मांग काफी नीचे आ गई थी। सरकार ने अप्रैल अंत से धीरे धीरे ढील देनी शुरू की जिसके बाद आर्थिक गतिविधियां बढने से बिजली की मांग धीरे धीरे बढने लगी। विशेषज्ञों ने भी इससे पहले विश्वास जताया था कि सितंबर के बाद से देश में न केवल बिजली की मांग सामान्य हो जाएगी बल्कि इसमें मामूली वृद्धि भी दिखने लगेगी।

अगस्त में उच्चतम बिजली मांग में गिरावट 5.65 फीसद तक बढ़ गई जो कि जुलाई में 2.61 फीसद पर थी। जुलाई 2020 में शीर्ष बिजली मांग 170.54 गीगावाट रिकार्ड की गई जो कि एक साल पहले इसी माह में 175.12 गीगावाट थी। वहीं अगस्त में यह 167.49 गीगावाट रही जबकि एक साल पहले इसी माह में 167.49 गीगावाट रही थी।

NOVA IRON & STEEL LTD Regd. Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.) Email: rai_nisl2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285206, Fax: 07752-285213

Extract from the Un-Audited Financial Results for

(Rs. in lacs) the Quarter Ended 30.06.2020 Corresponding Year to Particulars Ending date 3 months figures ended in the previous year 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 1 Total income from operations 72.88 5523.44 349.94 (37.74)2 Net Profit / (Loss) for the period (381.76) (4142.32)(before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before (381.76) (37.74)(4142.32) tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (41.25)4. Net Profit / (Loss) for the period after (381.76) (5223.07) tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (41.25) Total Comprehensive Income/ (Loss) (381.76) (5223.07)for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 3613.95 3613.95 Equity Share Capital 3613.95 Reserves (excluding Revaluation (5834.27) (5834.27)Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted 1.06 (14.45)(0.11)

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results files with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com)

For and on behalf of Board of Directors For Nova Iron & Steel Ltd. Sd/- (R.P Goyal Director (DIN 00006595

पंजाब नैशनल बैंक ○ bup punjab national bank

सर्किल सस्त्र सेंटर, सर्किल ऑफिस, बुलन्दशहर, ई-मेल : CS8212@pnb.co.in, cobsrsamd@pnb.co.in (1) पंजीकृत पता : मैसर्स टीकेएस मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रा.लि., ए-119/2, तीसरी मंजिल, अब्दुल फैजल एन्कलेव, पार्ट-2, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला

फैक्ट्री पता : मैसर्स टीकेएस मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रा.लि., निकट शिकारपुर तिराहा, बाईपास रोड, बुलन्दशहर (उ.प्र.) निदेशक: (1) मोहम्मद अदनान पत्र तैय्यब खान, मकान नं. 13/208, कोथियाट ईदगाह रोड, जिला बलन्दशहर (उ.प्र.) (2) तैय्यब खान पत्र बनियाद अली मकान नं. 13/208, कोथियाट ईदगाह रोड, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) (3) तारिक खान पुत्र तैय्यब खान, मकान नं. 13/208, कोथियाट ईदगाह रोड, जिल

जमानती : (1) श्रीमती कमर जहान पत्र यासीन खान, मकान नं. 13/208, कोथियाट ईदगाह रोड, जिला बलन्दशहर (उ.प्र.), (2) श्रीमती चमन जहान पत्री यासीन खान, मकान नं. 13/208, कोथियाट ईदगाह रोड, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.)

कब्जा सूचना [धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एव प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स टीकेएस मिल्क प्रॉडक्टस प्रा.लि. से सचना में उल्लिखित राशि रु. 16759358.74 (रुपये एक करोड़ सडसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ अट्ठावन एवं चौहत्तर पैसे मात्र) + पूर्ण भुगतान तक ब्याज का कथित सूचन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 14.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार के पुनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित

नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित (अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 9 जनवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धार 13 की उपधारा (8) की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानती को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 16759358.74 (रुपये एक करोड़ सडसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ अट्ठावन एवं चौहत्तर पैसे मात्र) + पूर्ण भुगतान तक 10.10.2019 से उस पर ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार

प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धार 13 की उपधारा (8) की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1	नकद क्रेडिट रु. 110.00 लाख	1.खेत सं. 1961/1, 1961/3, 1961, ग्राम रामपुरा बाईपास रोड
2	सावधि ऋण रु. 75.00 लाख	बुलन्दशहर 2.म.नं. 13/208, कोथियाट, वार्ड सं. 13, के.पी. रोड, बुलन्दशह
तिथि :	: 09.09.2020, स्थान : यमुनापुरम	अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंव

स्थानः नोएडा

अनुमानित लागत

धरोहर राशि जमा

दस्तावेज का मूल्य

निविदा प्रोसेसिंग शुल्क

बिक्री (ऑनलाइन) की तिथि

जमा करने की तिथि एवं समय

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) बी-4, कतब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 फ.7(514)/ला.ब.शा.रा.सं.वि/वि.नि.वि/2020-21 दिनांक: 31,08,2020

2 + 1 साल

निविदा आमंत्रण सूचना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों या अन्य सरकार द्वारा

स्वीकृत एजेंसियों से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबन्द मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं नि.आ.स्. 05/2020-21/ला.ब.स.वि./वि.नि.वि.(नि.क्र. 2020_एस.एल.बी.एस 555345_2) सारस्वत साधना सदन के कक्ष संख्या 202 को वर्ष खण्ड 2020-2<mark>1</mark> दौरान वर्चअल ई-क्लास रूम स्ट्रेडियो आदि में परिवर्तित करना (उपशीर्ष : ध्वनि /ध्वनिक कार्य, फर्निशिंग कार्य, विद्यतीकरण और वी.आर.वी./वी.आर.एफ. एयर कंडी<mark>श्र</mark>निंग सिस्टम आदि पूर्ण) अनुमानित लागत - रू.22,65,307/-, धरोहर राशि रू.45,306/-, निर्धारित समय - 90 दिन, निविदा शुल्क

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय : 21/09/2020 को अपराह्न 2.00 बजे तक। निविदा जारी करने की तिथि एवं समय : 23/09/2020 को अपराहन 4.00 बजे सं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 28/09/2020 को अपराहन 2.00 बजे तक। निविदायें खोले जाने की तिथि एवं समय : 28/09/2020 को अपराहन 3.00 बजे से। अधिक जानकारी शुद्धिपत्र आदि के लिए कृपया दी गई वेबसाईटो : http://www.slbsrsv.ac.in & www.eprocure.gov.in को देखें।

पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank

सामान्य सेवाऐ प्रशासन प्रभाग, प्रथम तल, प्लाट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, दिल्ली-110075; ईमेलः hogad@pnb.co.in Tel-011-28075388 निविदा सचना

पंजाब नैशनल बैंक निम्न स्थान पर रखी पुरानी/अनुपयोगी एसएफएफ वस्तुओं और अन्य विविध स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए बोलीदाताओं से सीलबंद बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है: 1. बेसमेंट-I एवं III. पीएनबी, प्रधान कार्यालय, सेक्टर-10 द्वारका, दिल्ली में ''जैसा है

2. I से VII तल, पीएनबी, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली में ''जैसा है जहां है'' के आधार पर

बेसमेंट-। एवं III. पीएनबी. प्रधान कार्यालय, सेक्टर-10 द्वारका, दिल्ली -110075

-21.09.2020 और 22.09.2020 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक. पीएनबी. 7 भीकाजी कामा प्लेस. दिल्ली 110066 - 24.09.2020 और 25.09.2020 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अपराहन 05.10.2020 3:00 बजे तक है।

इच्छक बोलीदाता विस्तृत निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट <u>https://www.pnbindia.in/Tender.aspx</u> पर जा सकते हैं । उपर्युक्त कार्यों के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/ Tender.aspx पर ही जारी किया जाएगा मुख्य प्रबंधक

एवन मकन्टाइल लामटड CIN: L17118UP1985PLC026582

निविदाओं को 06.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे खोला जाएगा।

पंजी. कार्यालय: एस ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19 ए एवं बी, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (उ. प्र.) वेबसाईट: www.avonmercantile.co.in 35वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एवन मर्केन्टाईल लिमिटेड की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एजीएम की सुचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई–वोटिंग के विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को सुचना के ईमेल 🛮 की पर्णता की तिथि 8 सितम्बर, 2020 है।

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019– 2020 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करायें।

भौतिक धारिता: ई–मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पता, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वतः सत्यापित प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते | हुए admin@mcsregistrars.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्टस एमसीएस शियर ट्रान्सफर एजेन्ट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें। यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं है तो कृपया अपने फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए मूल निरस्त

🛮 चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आरटीए (अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेन्ट लिमिटेड,

डीमैट धारिता: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह

एफ-65, 1 ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110020) के पास भेजें।

के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराऐं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.avonmercantile.co.in पर सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये उपलब्ध है। कम्पनी (प्रबंध) तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित तथा सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिये अपने पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान 20 सितम्बर, 2020

उसके बाद मतदान के लिये सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk@cdslindia.com अथवा info@masserv.com पर एमएएस सर्विसेस लिमिटेड को अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड

की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धत्ति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य ई-

लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिये सीडीएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। श्री अमित कुमार जैन, कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स (सदस्यता सं. 509349 को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में शामिल है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/समस्या श्री प्रांजल गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, एवन, मर्केन्टाइल लिमिटेड, एस ग्लोबल नालेज पार्क, 19ए एवं 19 बी, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-| 201301, फोनः 0120–4366444, ईमेलः pranjal.gupta@smobility.in को संबोधित की जा सकती है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 से रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के लिये शेयरधारकों का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे। एवन मर्केन्टाईल लिमिटेड के लिये

> कमलापति कश्यप निदेशक DIN: 02359002

(DIN:07349082)

दिनांक : 12.09.2020 जगह: नई दिल्ली

Place: New Delhi

Date: 10.09.2020

तिथि: 10 सितम्बर, 2020

www.readwhere.com